

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 393]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 1-98/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत टुण्डरा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. टुण्डरा नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
01	मां चण्डी देवी वार्ड
02	मां शारदा वार्ड
03	वीरनारायण सिंह वार्ड
04	इंदिरा वार्ड
05	मां दुर्गा वार्ड
06	अम्बेडकर वार्ड
07	ठाकुरदेव वार्ड
08	सफुरामाता वार्ड
09	गुरुघासीदास वार्ड
10	महादेव वार्ड
11	महामाया वार्ड
12	मां गायत्री वार्ड
13	संतकबीर वार्ड
14	अटल वार्ड
15	शिवाजी वार्ड

टुण्डरा नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक — 01 मां चण्डी देवी वार्ड

- उत्तर :- पंचराम साहू के मकान से घासीराम के मकान तक।
 पूर्व :- घासीराम के मकान से गिधौरी टुण्डरा सड़क मार्ग तक।
 दक्षिण :- गिधौरी टुण्डरा सड़क मार्ग से रामप्रसाद के मकान तक।
 पश्चिम :- रामप्रसाद के मकान से पंचराम साहू के मकान तक।

वार्ड क्रमांक — 02 मां शारदा वार्ड

- उत्तर :- सूरज के मकान से रामकुमार के मकान तक।
 पूर्व :- रामकुमार के मकान से बंधवा तालाब तक।
 दक्षिण :- बंधवा तालाब से बंधवा तालाब मेंढ तक।
 पश्चिम :- बंधवा तालाब मेंढ से सूरज के मकान तक।

वार्ड क्रमांक — 03 वीर नारायण सिंह वार्ड

- उत्तर :- तिहारू के मकान से हेतराम केंवट के मकान तक।
 पूर्व :- हेतराम केंवट के मकान से चमरू देवांगन के मकान तक।
 दक्षिण :- चमरू देवांगन के मकान से अशोक श्रीवास के मकान तक।
 पश्चिम :- अशोक श्रीवास के मकान से तिहारू के मकान तक।

वार्ड क्रमांक — 04 इंदिरा वार्ड

- उत्तर :- चमार राय यादव के मकान से गुहा पटेल के मकान तक।
 पूर्व :- गुहा पटेल के मकान से दिलीप के खेत तक।
 दक्षिण :- दिलीप के खेत से उत्तरा सतनामी के खेत तक।
 पश्चिम :- उत्तरा सतनामी के खेत से चमार राय यादव के मकान तक।

वार्ड क्रमांक - 05 मां दुर्गा वार्ड

- उत्तर :- भरत साहू के मकान से मनबोधी देवांगन के मकान तक ।
 पूर्व :- मनबोधी देवांगन के मकान से थानूराम देवांगन के मकान तक ।
 दक्षिण :- थानूराम देवांगन के मकान से रामनाथ साहू के खेत तक ।
 पश्चिम :- रामनाथ साहू के खेत से भरत साहू के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक - 06 अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर :- घनश्याम के मकान से गोरेलाल के मकान तक ।
 पूर्व :- गोरेलाल के मकान से नारायण के मकान तक ।
 दक्षिण :- नारायण के मकान से बी.सी. मेहर के मकान तक ।
 पश्चिम :- बी.सी. मेहर के मकान से घनश्याम के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक - 07 ठाकुर देव वार्ड

- उत्तर :- रथराम देवांगन के मकान से मोतीराम पटेल के मकान तक ।
 पूर्व :- मोतीराम पटेल के मकान से भरतलाल घसिया के मकान तक ।
 दक्षिण :- भरतलाल घसिया के मकान से भरत मेडिकल स्टोर्स तक ।
 पश्चिम :- भरत मेडिकल स्टोर्स से रथराम देवांगन के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक - 08 सफुरामाता वार्ड

- उत्तर :- भीष्मा के मकान से जवाहर के मकान तक ।
 पूर्व :- जवाहर के मकान से चन्दू के मकान तक ।
 दक्षिण :- चन्दू के मकान से कृपाराम के मकान तक ।
 पश्चिम :- कृपाराम के मकान से भीष्मा के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक - 09 गुरुघासीदास वार्ड

- उत्तर :- मंगल भवन से हीराधर के मकान तक ।
 पूर्व :- हीराधर के मकान से साहिबीन सतनामी के मकान तक ।
 दक्षिण :- साहिबीन सतनामी के मकान से राजेन्द्र सतनामी के मकान तक ।
 पश्चिम :- राजेन्द्र सतनामी के मकान से मंगल भवन तक ।

वार्ड क्रमांक - 10 महादेव वार्ड

- उत्तर :- गोटीलाल के मकान से देवचरण के मकान तक ।
 पूर्व :- देवचरण के मकान से मंगल भवन तक ।
 दक्षिण :- मंगल भवन से भागीरथी के मकान तक ।
 पश्चिम :- भागीरथी के मकान से गोटीलाल के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक - 11 महामाया वार्ड

- उत्तर :- सीताराम के मकान से मंगल कर्ष के मकान तक ।
 पूर्व :- मंगल कर्ष के मकान से राधाकृष्ण के मकान तक ।
 दक्षिण :- राधाकृष्ण के मकान से नारायण के मकान तक ।
 पश्चिम :- नारायण के मकान से सीताराम के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक - 12 मां गायत्री वार्ड

- उत्तर :- रोहित के मकान से महेत्तर के मकान तक ।
 पूर्व :- महेत्तर के मकान से मनमोहन के मकान तक ।
 दक्षिण :- मनमोहन के मकान से राममोहन रामरतन के मकान तक ।
 पश्चिम :- राममोहन रामरतन के मकान से रोहित के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक - 13 संत कबीर वार्ड

- उत्तर :- दयाल के मकान से मनोहर पनका के मकान तक ।
 पूर्व :- मनोहर पनका के मकान से मुनू देवांगन के मकान तक ।
 दक्षिण :- मुनू देवांगन के मकान से बिसाहू देवांगन के मकान तक ।
 पश्चिम :- बिसाहू देवांगन के मकान से दयाल के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक - 14 अटल वार्ड

- उत्तर :- सेतराम देवांगन के मकान से बंशीलाल देवांगन के मकान तक ।
 पूर्व :- बंशी लाल देवांगन के मकान से राधे देवांगन के मकान तक ।
 दक्षिण :- राधे देवांगन के मकान से दुलार श्रीवास के मकान तक ।
 पश्चिम :- दुलार श्रीवास के मकान से सेतराम देवांगन के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक – 15 शिवाजी वार्ड

- उत्तर :- शिवकुमार पटेल के मकान से सोलिहा तालाब तक ।
पूर्व :- सोलिहा तालाब से नरेश पटेल के मकान तक ।
दक्षिण :- नरेश पटेल के मकान से शिवराम पटेल के मकान तक ।
पश्चिम :- शिवराम पटेल के मकान से शिवकुमार पटेल के मकान तक ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक – एफ 1-98/2019/18 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ 1-98/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

NOTIFICATION

No. F 1-98/2019/18 :- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Tundra Distt. Balodabajar-Bhatapara as per schedule given Below:-

1. Divides Nagar Panchayat Tundra into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Maa Chandi Devi Ward
2	Maa Sharda Ward
3	Virnarayan Singh Ward
4	Indira Ward
5	Maa Durga Ward
6	Ambedkar Ward
7	Thakur Dev Ward
8	Safura Mata Ward
9	Guru Ghasidas Ward
10	Mahadev Ward
11	Mahamaya Ward
12	Maa Gaytri Ward
13	Sant Kabir Ward
14	Atal Ward
15	Shivaji Ward

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Tundra**Ward No. 01 - Maa Chandi Devi Ward**

- Noth- From Panchram Sahu"s house to Ghasiram"s House.
East- From Ghasiram"s house to Gidhauri-Tundra Road.
South- From Gidhauri-Tundra Road to Ramprasad"s house.
West- From Ramprasad"s house to Panchram Sahu"s house.

Ward No. 02 - Maa Sharda Ward

- Noth- From Suraj"s house to Ramkumar"s house.
East- From Ramkumar"s house to Bandhawa Pond.
South- From Bandhwa Pond to Bandhwa Pond bund.
West- Bandhwa Pond bund to Suraj"s house.

Ward No. 03 - Virnarayan Singh Ward

- Noth- From Tiharu"s house to Hetram Kenwat"s house.
East- From Hetram Kenwat"s house to Chamru Dewangan"s house.
South- From Chamru Dewangan"s house to Ashok Shriwas"s house.
West- From Ashok Shriwas"s house to Tiharu"s house.

Ward No. 04 - Indira Ward

- Noth- Chamar Rai Yadaw"s house to Guha Patel"s house.
East- From Guha Patel"s House to Dilip"s Farm.
South- From Dilip"s Farm to Uttra Satnami"s Farm.
West- From Uttra Satnami"s Farm to Chamar Rai Yadaw"s house.

Ward No. 05 - Maa Durga Ward

- Noth- From Bharat Sahu"s house to Mandodhi Dewangan"s house.
 East- From Mandodhi Dewangan"s house to Thanuram Dewangan"s House.
 South- From Thanuram Dewangan"s House to Ramnath Sahu"s Farm.
 West- From Ramnath Sahu"s Farm to Bharat Sahu"s house.

Ward No. 06 - Ambedkar Ward

- Noth- From Ghanshyam"s house to Gorelal"s house.
 East- From Gorelal"s house to Narayan"s house.
 South- From Narayan"s house to B.C. Mehar"s house.
 West- From B.C.Mehar"s house to Ghanshyam"s House.

Ward No. 07 - Thakur Dev Ward

- Noth- From Rathram Dewangan"s house to Motiram Patel"s house.
 East- From Motiram Patel"s house to Bharatlal Ghasiya"s house.
 South- From Bharatlal Ghasiya"s house to Bharat"s Medical store.
 West- From Bharat"s Medical Store to Rathram Dewangan"s house.

Ward No. 08 - Safura Mata Ward

- North- From Bhisma"s house to Jawahar"s house.
 East- From Jawahar"s house to Chandu"s house.
 South- From Chandu"s house to Kriparam"s house.
 West- From Kriparam"s house to Bhishma"s house.

Ward No. 09 - Guru Ghasidas Ward

- North- From Mangal Bhawan to Hiradhar"s house.
 East- From Hiradhar"s house to Sahibin Satnami"s house.
 South- From Sahibin Satnami"s house to Rajendra Satnami"s house.
 West- Rajendra Satnami"s house to Mangal Bhawan.

Ward No. 10 - Mahadev Ward

- Noth- From Gotilal"s house to Devcharan"s house.
East- From Devcharan"s house to Mangal Bhawan.
South- From Mangal Bhawan to Bhagirathi"s house.
West- From Bhagirathi"s house to Gotilal"s house.

Ward No. 11 - Mahamaya Ward

- Noth- From Sitaram"s house to Mangal Karsh"s house.
East- From Mangal Karsh"s house to Radhakrishna"s house.
South- From Radhakrishna"s house to Narayan"s house.
West- From Narayan"s house to Sitaram"s house.

Ward No. 12 -Maa Gaytri Ward

- Noth- Form Rohit"s house to Mahettar"s house.
East- From Mahettar"s house to Manmohan"s house.
South- From Manmohan"s house to Rammohan Ramratan"s house.
West- From Rammohan Ramratan"s house to Rohit"s house.

Ward No. 13 - Sant Kabir Ward

- Noth- From Dayal"s House to Manohar Panka"s house.
East- From Manohar Panka"s house to Munu Dewangan"s house.
South- From Munu Dewangan"s house to Bisahu Dewangan"s house.
West- From Bisahu Dewangan"s house to Dayal"s house.

Ward No. 14 -Atal Ward

- Noth- From Setram Dewangan"s house to Banshilal Dewangan"s house.
East- From Bansilal Dewangan"s house to Radhe Dewangan"s house.
South- From Radhe Dewangan"s house to Dular Shriwas"s house.
West- From Dular Shriwas"s house to Setram Dewangan"s house.

Ward No. 15 - Shivaji Ward

- Noth- From Shivkumar Patel"s house to Soliha Pond.
East- From Soliha Pond to Naresh Patel"s house.
South- Naresh Patel"s house to Shivram Patel"s house.
West- Shivram Patel"s house to Shivkumar Patel"s house.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R.EKKA, Deputy Secretary.